



नई दिल्ली □ पाकिस्तान के अनुभवी तेज गेंदबाज वसीम अक्रम का मानना है

कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भागीदारी से आईपीएल की चमक और सरहद पार लोकप्रियता भी बढ़ेगी □ आईपीएल के पहले सत्र (2008) के बाद से मुंबई आतंकवादी हमले के कारण इस टी20 लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी भाग नहीं ले सके हैं □

अक्रम का मानना है कि उपमहाद्वीप के क्रिकेट प्रेमियों को क्रिकेट की इस शानदार मैदानी प्रतिद्वंद्विता का लुत्फ उठाने से और वंचित नहीं रखना चाहिए □

उन्होंने भाषा से कहा, “मैंने हमेशा कहा है कि खेलों और राजनीति के आपस में जोड़ना नहीं चाहिए □ भारत और पाकिस्तान के मैचों में जबर्दस्त क्रिकेट देखने को मिलती है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम खेल से इतर कारणों से इसका मजा उठाने से वंचित हैं □”

रिवर्स स्वर्ग के इस सुल्तान ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भागीदारी से आईपीएल की चमक बढ़ेगी □ केलकता नाइट राइडर्स के गेंदबाजी कोच ने कहा, “मैंने पहले भी कहा है कि खेलों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए □ पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भागीदारी से वे टीमों में मजबूत होती, जिनके लिये वे खेलते □ पाकिस्तान में आईपीएल काफी लोकप्रिय है और यदि पाकिस्तानी खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे तो इसकी लोकप्रियता और बढ़ेगी □”

{loadposition user13}

इस साल नरिशान क शुरुआत के बाद लगातार छह मैच जीतने वाली वेस्टइंडीज के प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि नए खिलाड़ियों के संयोजन की वजह से नतीजे आने में समय लगता है □ अक्रम ने कहा, “यह नई टीम थी और नए खिलाड़ियों का संयोजन लहिजा नतीजे आने में समय लगा □ टीम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और अच्छा प्रदर्शन होना ही था □ अब सभी का कोई-कई के रूप में अच्छा खेल रहे हैं □ जसिसे नतीजे मिल रहे हैं □”

पाकिस्तान के लिये 104 टेस्ट में 414 और 356 वनडे में 502 विकेट ले चुके इस गेंदबाज ने गौतम गंभीर की नेतृत्व क्षमता की भी तारीफ की □ उन्होंने कहा, “गौतम बेहतरीन कप्तान हैं और उसका रिकॉर्ड सबके सामने है □ अपनी मानसिक दृढ़ता के दम पर खराब शुरुआत के बाद उसने फॉर्म में वापसी

की वह मोर्चे से अगुवाई करता है और उसके पास अपार अनुभव है। ”

उन्होंने इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया कि क्या गंभीर, युवराज, सहवाग और जहीर जैसे सीनियर खिलाड़ी भारत की 2015 विश्व कप टीम का हिस्सा होना चाहें।

उन्होंने कहा, “ये सभी प्रतियोगिता खिलाड़ी हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलने का काफी अनुभव है। उन्हें पचिों और हालात की अच्छी जानकारी है लेकिन मैं इस बारे में नहीं कह सकता कि वे चयन के हकदार हैं या नहीं। ”

अक्रम ने कहा कि मंसूर धोनी और वरिष्ठ केहली जैसे खिलाड़ी विश्व कप में भारत की सफलता की कुंजी होंगे। उन्होंने कहा, “भारत खिताब के प्रबल दावेदारों में से एक है क्योंकि उसके पास युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा तालमेल है। धोनी और वरिष्ठ जैसे खिलाड़ी उसके लिए सफलता की कुंजी होंगे। ”

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पचिों के लिए भारतीय तेज गेंदबाजों को टपिस देते हुए उन्होंने कहा कि उसी तरह के पचिों पर उन्हें अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने कहा, “उन्हें वैदेशी पचिों की तरह बनाई गई विकेटों पर ही अभ्यास करना चाहिए। प्रतियोगिता की कमी नहीं है लेकिन उसके साथ कड़ी मेहनत भी जरूरी है। ”

(भाषा)